

**प्रेस विज्ञप्ति**

**जनपद बस्ती**

**दिनांक 08.07.2021**

**थाना कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्यवाही में चौकी क्षेत्र बड़ेबन लूट काण्ड के तीन अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री आलोक प्रसाद के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री मनोज कुमार त्रिपाठी व प्रभारी स्वाट टीम श्री विकास यादव की संयुक्त टीम द्वारा मु0अ0सं0 187/2021 धारा 392,411 IPC थाना कोतवाली का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 08.07.2021 को भदेश्वर नाथ मन्दिर व डारीडीहा तिराहे के बीच से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त दिव्यांशु सिंह व हर्षित पाण्डेय के पैर में गोली लगी। घायल को इलाज हेतु जिला अस्पताल बस्ती भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान उ0नि0 जनार्दन प्रसाद के बाए हाथ में फायरिंग से चोट आ गयी।

पुलिस पर अवैध असलहे से फायर करने व अन्य बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 208/2021 धारा 307 IPC व मु0अ0सं0 209, 210/2021 धारा 3/25 A. Act पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-**

1. दिव्यांशु सिंह पुत्र आनन्द सिंह निवासी ओरीजोत थाना कोतवाली जनपद बस्ती स्थाई पता ग्राम कालेशर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर उम्र 25 वर्ष।
2. हर्षित पाण्डेय पुत्र चन्द्र प्रकाश पाण्डेय निवासी सरजू नहर कालोनी थाना कोतवाली जनपद बस्ती स्थाई पता ग्राम लालापुरवा परास थाना तरबगंज जनपद गोण्डा तथा मोहल्ला लक्ष्मण घाट थाना कोतवाली जनपद अयोध्या उम्र 22 वर्ष।
3. रामकिशुन पुत्र पूर्णवासी ग्राम अगई भगाड़ थाना नगर जनपद बस्ती उम्र करीब 24 वर्ष।

### **बरामदगी का विवरण:-**

1. नगदी रूपया 70,400/- बरामद
2. दो अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूत व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. तीन अदद मोबाइल
4. एक अदद मोटरसाइकिल हीरो होण्डा नं0-UP 51 AN 3343 (घटना में प्रयुक्त)

### **घटना का संक्षिप्त विवरण:-**

नीरज पाण्डेय पुत्र विनय प्रकाश पाण्डेय निवासी अमरौना थाना लालंगंज जनपद बस्ती ने थाना कोतवाली पर लिखित सूचना दिया कि दिनांक 16.06.2021 को मै डेल्हीवेरी प्रा0लि0 में काम कर रहा था कि करीब 10 बजे रात को 03 अज्ञात बदमाश तमंचा लेकर आये और तमंचा दिखाकर नगदी रूपया व मोबाइल छीनकर भाग गये। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 187/2021 धारा 392 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।

## पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया कि यह पैसा हम लोग दिनांक 16.06.2021 को रात्रि करीब 10.00 बजे पटेलवा में डेल्हीवेरी प्रा0लि0 से कट्टा दिखाकर दुकान के अन्दर मेज की रैक से लुटे थे। दिव्यांशु व रामकिशुन ने बताया कि हम दोनों इसी कम्पनी में काम करते थे, काफी रुपया आता जाता था। हम लोग हर्षित पाण्डेय को साथ लेकर योजना बनाकर घटना कारीत किये थे। जिसमें कुल 3,58,000 रुपया मिला था, जिसे हम लोग आपस में बाट लिए थे। तीनों अभियुक्तों ने बताया कि हम लोगों के पास से जो पैसा बरामद हुआ है यह उसी लूट का पैसा है, जो बचा था, बाकी खर्च हो गया है तथा जो मोबाइल हम लोग मैनेजर से लिए थे, वह अमहट पुल से नदी में फेक दिये तथा इसी मोटरसाइकिल से हम तीनों लोग घटना को अंजाम दिये थे आज हम लोग बस्ती जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिए गये।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मनोज कुमार त्रिपाठी जनपद बस्ती।
2. चौकी प्रभारी बड़ेबन श्री जनार्दन प्रसाद थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
3. चौकी प्रभारी रौतापार श्री नारायण लाल श्रीवास्तव थाना कोतवाली जनपद बस्ती।
4. प्रभारी निरीक्षक स्वाट टीम श्री विकास यादव जनपद बस्ती।
5. उ0नि0 विनोद यादव, हे0का0 मनीन्द्र प्रताप चन्द्र, हे0का0 रवि प्रताप सिंह, हे0का0 मनोज राय, का0 रविन्द्र शंकर शाह स्वाट टीम बस्ती।
6. का0 जनार्दन प्रजापति, का0 हिन्दे आजाद, का0 सतेन्द्र सर्विलांस सेल जनपद बस्ती।
7. हे0का0 दीपक कुमार सिंह, हे0का0 संजय कुमार थाना कोतवाली जनपद बस्ती।